

30th March 2024

To, **BSE Limited,** P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001.

Scrip Code : **540696**

Scrip ID : KCDGROUP

Dear Sir/Madam,

Sub: Submission of Newspaper Clippings.

In compliance with Regulation 47 and 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith copy of Newspaper clippings published in following newspapers relating to the third reminder notice for payment of First and Final Call Money:

- 1. English Newspaper
- 2. Marathi Newspaper
- 3. Hindi Newspaper

We hereby request you to take the above cited information on your records.

Thanking You.

For KCD Industries India Limited

Rajiv Darji Managing Director DIN: 02088219

Enclosed: As stated above

KCD INDUSTRIES INDIA LIMITED

Corporate Division
1101/1102, Techno IT Park,
New Link Road, Near Eksar Metro Station,
Borivali (West), Mumbai - 400 091.
Tel.:+91 91373 22030
Email:compliance@kcdindustries.com
CIN: L70100MH1985PLC301881



FINANCIAL EXPRESS

Parts of south Mumbai go dark for the second day

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, March 29

PARTS OF SOUTH Mumbai go dark for the second dayPockets in south Mumbai plunged into darkness for a second consecutive day on late Friday evening following a snag, electricity officials said. The snag was caused at a 33 kilovolt (kv) feeder of city power discom Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) undertaking near Crawford Market, they said.

Localities around the Mahapalika Marg, GT Hospital, Crawford Market and Marine Lines witnessed power failure at around 6.45 pm.

"The same location/area as yesterday (Thursday) experienced supply disruptions as a result of BEST's 33kv cable fault. The restoration work is being carried out by the BEST South team," a statement from Tata Power said.

A senior BEST official said power was fully restored by 9:15pm, with supply to state-run GT Hospital, Bombay Hospital, BMC headquarters and police headquarters getting restored within 15 minutes after they were taken up on priority.

Some technical snag occurred in one of the old BEST cables that reaches the utility's feeder or receiving station at Crawford Market from Tata Power's substation at Carnac Bunder, the official said.

The cable was different from the one that malfunctioned on Thursday, he added.

Corporate Identification Number: L70100MH1985PLC301881

Registered Office: 1101/1102, Techno Park, Link Road, Borivali (West), Mumbai - 400 092, Contact Details: +91 77159 54966 | Email-ID:compliance@kcdindustries.com | Website:www.kcdindustries.com Contact Person: Mr. Rajiv Darji, Managing Director and CFO PROMOTERS OF OUR COMPANY IS MR. RAJIV DARJI

This is only an Advertisement for the information purpose and not for Publication, distribution, or release, directly o indirectly in the United States of America or otherwise outside India. This is not an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 19th May 2023 ('Letter of Offer') filed with BSE Limited, the stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed ('BSE') and Securities Exchange Board of India ('SEBI').

THIRD REMINDER CUM DEMAND NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES ON WHICH CALL MONEY IS TO BE PAID

In terms of provisions of Companies Act, 2013 (Act) read with the relevant rules made thereunder, notice for payment of First and Final Call Money on partly paid-up shares has been issued to such persons who were members of the company as on record date i.e. 10th August 2023. The call payment period has since expired on 01st September 2023.

The Board of Directors of the company at its meeting held on 26th March 2024 approved the third reminder cum demand notice for payment of First and Final Call Money of Rs. 13.50/- (comprising Rs. 0.75/- towards face value and Rs. 12.75/- towards securities premium) per partly paid-up equity share as "Third Reminder Notice" for shares on which the First and final Call remains unpaid after first and second reminder notice.

registered email id or address, as applicable. Please note that the failure to pay the First and Final call money pursuant to the demand notice, as aforesaid shall render the partly paid-up Rights Shares, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited

The payment period begins from 01st April 2024and ends on15th April 2024 (Both days inclusive). For

further details shareholders are requested to refer Third Reminder Notice sent on 28th March 2024 on their

All correspondence in this regard may be addressed to Skyline Financial Services Private Limited at ipo@skylinerta.com

in accordance with the companies Act, Article of Association and Letter of offer

For KCD Industries India Limited

Date: 29" March 2024 Place: Mumbai

Rajiv Darji Managing Director and CFO DIN: 02088219

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE SCHEME INFORMATION DOCUMENT ('SID') / KEY INFORMATION MEMORANDUM ('KIM') OF THE SCHEME(S) AND STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ('SAI') OF AXIS MUTUAL FUND

Shifting of the Registered Office of Axis Asset Management Company Limited ('Axis AMC'), Axis Mutual Fund Trustee Limited ('Axis Trustee Company') and the Principal Office of Axis Mutual Fund ('the Fund')

Investors are requested to take note of the change in the address of the Registered Office of Axis AMC, Axis Trustee Company and

the Principal Office of the Fund as follows with effect from April 01, 2024 (Effective date): **Existing Address** New Address "Axis House", 1st Floor, C-2, Wadia International Centre, Pandurang One Lodha Place, 22nd & 23nd Floor, Senapati Bapat Marg,

Pursuant to the above change, the relevant sections of SID / KIM & SAI shall stand modified. All other terms & conditions of SID / KIM of schemes & SAI of the Fund will remain unchanged.

Further, all communications/correspondences are requested to be sent to the new address from the Effective date.

This notice cum addendum shall form an integral part of the SID / KIM of the schemes & SAI of the Fund. Investors are requested to kindly take note of the above.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India.

For Axis Asset Management Company Limited (CIN - U65991MH2009PLC189558)

Gop Kumar Bhaskaran

(Investment Manager to Axis Mutual Fund)

Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, Pin Code - 400 013.

No.: 143/2023-2024 Managing Director & Chief Executive Officer

Statutory Details: Axis Mutual Fund has been established as a Trust under the Indian Trusts Act, 1882, sponsored by Axis Bank Ltd. (liability restricted to ₹ 1 Lakh). Trustee: Axis Mutual Fund Trustee Limited Investment Manager: Axis Asset Management Company Limited (the AMC) Risk Factors: Axis Bank Ltd. is not liable or responsible for any loss or shortfall resulting from the operation of the schemes.



Axis House, First Floor, C2, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, India. TEL: (022) 4325-5161, FAX: (022) 4325-5199, EMAIL: customerservice@axismf.com, WEBSITE: www.axismf.com.

Assam puts petroleum retailers under ESMA

PRESS TRUST OF INDIA Guwahati, March 29

THE ASSAM GOVERNMENT on Friday brought petroleum dealers and retailers under the Essential Services Maintenance (Assam) Act or ESMA in view of a strike called by their association.

The government also issued directives to all district administrations to ensure smooth purchase and sale of petroleum and petroleum products, and that no untoward incident occurs.

An order issued by the governor said that petroleum dealers and retailing outlets dealing with the purchase and sale of petroleum and petroleum products, including natural gas, shall also be deemed to be covered under the clauses dealing with prohibiting strikes under the ESMA, which is already in force in the state.

The governor, by an order on January 4, had enforced ESMA in the state for a period of six months to prohibit strikes.

The earlier order covered officers, workmen, contract labourers, and tanker drivers and handymen involved in the oil and gas sector.

Consequent to the latest order, the government has issued separate directions to all district commissioners (DCs) and superintendents of police (SPs) to coordinate with officials of oil companies to ensure the smooth purchase and sale of petroleum, if required by enforcing the provisions of ESMA.

Pilots' body flags revised duty norms' deferment

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, March 29

THE FEDERATION OF Indian Pilots (FIP) has raised concerns about aviation regulator DGCA deferring the implementation of the revised flight duty norms for pilots, saying the health of pilots cannot be prejudiced for the commercial benefit of operators. The Directorate General of Civil Aviation (DGCA), on March 26, deferred the implementation of the revised Flight Duty Time Limitations (FDTL) norms that were to be effec-

tive from June 1. The new framework, which would provide more rest hours for pilots, was proposed amid concerns about pilot fatigue. In a letter dated March 28 to Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia, the FIP has flagged concerns about the DGCA decision. "The action of the DGCA not only endangers pilot safety but also undermines the safety of passengers which the implementation of the revised CAR (Civil Aviation

Requirements) could prevent. "Furthermore, the health and safety of the pilots cannot be prejudiced for the commercial benefit of the operators," the letter said. The FIP has around 5,000 members who are pilots and those related to aviation.

QR Code to view

REGULATIONS").

the DRHP)

AFCONS

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN

BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Place: Mumbai

Date: March 29, 2024

AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED

We originally began our operations as a civil construction firm in 1959 as a partnership between the Rodio Foundation Engineering Limited, Switzerland and Hazarat & Company. India under the name of 'Rodio Foundation Engineering Limited and Hazarat & Company. The Partnership Deed was amended from time to time as a result of addition or retirement of partners, and the partnership was registered under the Indian Partnership was registered under the name of 'Asia Foundations and Constructions Private Limited' under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated November 22, 1976 issued by the RoC. Pursuant to an indenture dated March 22, 1977, the entire business and undertaking of the partnership firm i.e., Rodio Foundation Engineering Limited and Hazarat & Company was transferred to our Company as a running concern. Subsequent to the aforementioned transfer, our Company as per Section 43A of the Company became a deemed public limited company was changed from 'Asia Foundations and Constructions Private Limited' to 'Asia Foundations and Constructions Limited'. Subsequently, the name of our Company was changed from 'Asia Foundations and Constructions Limited' to 'Afcons Infrastructure Limited' to 'Afcons Infrastructure Limited' pursuant to a resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on July 25, 1996, and a fresh certificate of incorporation dated August 14. 1996, was issued to our Company by the RoC. The Company's status was converted from a deemed public company to a public limited company pursuant to a resolution passed in the extraordinary general meeting of our Shareholders held on November 4, 1997, and a fresh certificate of change of name was issued to our Company by the RoC on November 11, 1997

Registered and Corporate Office: Afcons House, 16 Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai-400053, India | Contact Person: Gaurang Maheshchandra Parekh; Telephone: 022-67191214, Email: gaurang@afcons.com; Website: www.afcons.com

OUR PROMOTERS: GOSWAMI INFRATECH PRIVATE LIMITED, SHAPOORJI PALLONJI AND COMPANY PRIVATE LIMITED AND FLOREAT INVESTMENTS PRIVATE LIMITED INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [*] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[*] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[*] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 70,000 MILLION (THE "OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 12,500 MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●] EQUITY

SHARES AGGREGATING UP TO ₹57,500 MILLION BY GOSWAMI INFRATECH PRIVATE LIMITED (THE "OFFER FOR SALE"). THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹10 EACH. THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMs, AND WILL BE ADVERTISED IN ALI EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (THE "SEBI ICDR

THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [♦] EQUITY SHARES, AGGREGATING UP TO [♦] MILLION (CONSTITUTING UP TO [♦] MILLION (RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO ₹ [♠] TO THE OFFER PRICE (EQUIVALENT OF ₹[♠] PER

CONDITIONS ("PRE-IPO PLACEMENT"). IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE FRESH ISSUE SIZE WILL BE REDUCED TO THE EXTENT OF SUCH PRE-IPO PLACEMENT. SUBJECT TO THE OFFER (COMPRISING THE FRESH ISSUE SO REDUCED BY THE AMOUNT RAISED FROM In case of any revision to the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, in

consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Member(s) and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable This is an Offer in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulations, Wherein in terms of Regulations of Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, wherein in terms of Regulations of Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations.

Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", and such portion") provided that our Company, acting through its Board and the Selling Shareholder in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which at least one-third shall be available for allocation to domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 200,000 and up to ₹1,000,000; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹ 1,000,000; and (b) two-third of such portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price (net of Employees applying under the Employees applying und by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID for UPI Bidders using UPI Mechanism) (as defined hereinafter) in which the Bid amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Banks, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 613 of the DRHP

This public announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing to undertake, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated March 28, 2024 with SEBI and thereafter with Stock Exchanges

Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI shall be made available to the public for comments, if any, for period of at least 21 days, from the date of filing by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, NSE at www.nseindia.com, NSE at www.nseindia.com, DAM Capital Advisors Limited at www.icicisecurities.com, Dam Capital Adv and Securities (India) Private Limited at www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html, Nuvama Wealth Management Limited at www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html www.afcons.com. Our Company hereby invites the public to give their comments on the DRHP dated March 28, 2024 filed with SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein below, All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLMs and/or before 5:00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEBI

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the DRHP. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" on page 45 of the DRHP. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be made after the red herring Prospectus (Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the

The Equity Shares, when offered, through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on the main board of the Stock Exchanges. For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 303 of the DRHP.

The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital, capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them see "Capital Structure" on page 105 of the DRHP. **BOOK RUNNING LEAD MANAGERS** REGISTRAR TO THE OFFER

1 ICICI Securities

ICICI Securities Limited ICICI Venture House. Appasaheb Marathe Marg. Prabhadevi, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Telephone: +91 22 6807 7100

Place: Mumbai

Date : March 30, 2024

E-mail: afcons.ipo@icicisecurities.com Investor Grievance ID: Website: www.icicisecurities.com

customercare@icicisecurities.com Contact person: Rupesh Khant SEBI Registration No.: INM000011179

DAM Capital Advisors Limited

One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No. 1511 Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051 Maharashtra, India Telephone: +91 22 4202 2500 E-mail: afcons.ipo@damcapital.in Investor Grievance ID: complaint@damcapital.in Website: www.damcapital.in

Contact person: Arpi Chheda

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

SEBI Registration No.: MB/INM000011336

Jefferies Jefferies India Private Limited Level 16, Express Towers,

Nariman Point, Mumbai 400 021 Maharashtra, India Telephone: +91 22 4356 6000 E-mail: afcons.ipo@jefferies.com Investor Grievance ID: jipl.grievance@jefferies.com Website: www. jefferies.com Contact person: Suhani Bhareja SEBI Registration No.: INM000011443

NOMURA

Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited Ceejay House, Level 11 Plot F Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Marg, Worli Mumbai 400 018 Maharashtra, India Telephone: +91 22 4037 4037 E-mail: afconsipo@nomura.com Investor Grievance ID: investorgrievances-in@nomura.com Website: www.nomuraholdings.com/ company/group/asia/india/index.html Contact person: Vishal Kanjani / Kshitij Thakur

nuvama Nuvama Wealth Management Limited

(formerly known as Edelweiss

Securities Limited) 801 -804, Wing A, Building No 3 Inspire BKC, G Block Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai -400 051 Maharashtra, India Telephone: +91 22 4009 4400 Email: Afcons.lpo@nuvama.com Investor Grievance ID: customerservice.mb@nuvama.com Website: www.nuvama.com

Contact person: Manish Teiwani

SEBI Registration No.: INM000011419 | SEBI Registration No.: INM000013004

OSBICAPS

SBI Capital Markets Limited 1501, 15th Floor, A & B Wing Parinee Crescenzo Building, G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400 051 Maharashtra, India Telephone: +91 22 4006 9807 E-mail: afcons.ipo@sbicaps.com Investor Grievance ID: investor.relations@sbicaps.com Website: www.sbicaps.com Contact person: Sambit Rath / Karan Savardekar

SEBI Registration No.: INM0000035

LINK Intime

Link Intime India Private Limited C-101, 1st Floor, 247 Park L.B.S. Marg,

Vikhroli (West) Mumbai 400 083 Maharashtra, India Telephone: +91 810 811 4949 E-mail: afconsinfrastructure.ipo @linkintime.co.in Investor Grievance ID:

afconsinfrastructure.ipo@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058

For AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED On behalf of the Board of Directors

Gaurang Maheshchandra Parekh Company Secretary and Compliance Officer AFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated March 28, 2024 with SEBI and therafter

with the Stock Exchanges. The DRHP shall be available on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE at www.seindia.com, the websites of the BRLMs, i.e. ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, DAM Capital Advisors Limited at www.damcapital.in, Jefferies India Private Limited at www.pefferies.com/company/group/asia/india/index.html, Nuvama Wealth Management Limited (formerly known as Edelweiss Securities Limited) at www.nuvama.com and SBI Capital Markets Limited at www.sbicaps.com and the website of our Company at www.afcons.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" on page 45 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision. The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any state law of the United States and, unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a

transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities are being offered and sold (i) within the United States only to persons reasonably believed to be "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) under Section 4(a) of the U.S. Securities Act, and (ii) outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.



financialexp.epapr.in













तिथि जिसमे

बकाया है

15.3.2024

मै. फिनट्री फाइनांस प्रा. लि

सूचना - 19/03/2024

एनपीए - 15/02/2024 को

स्ट. 43,06,929/-

(रूपये तैंतालीस लाख छह

आईएनआर में

[प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 का नियम 8(1)]

ADITYA BIRLA CAPITAL

362266 शाखा कार्यालयः न. एन/17, 1ला तल, विजया बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड. नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 16.1.2024 जारी कर ऋणधारकों अनुप अलघ, मीनी अलघ, शाहजी ट्रेडर्स को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 37,51,379.66/- (रु. सैंतीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ उन्यासी एवं पैसे छियासठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 28 मार्च, 2024 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 37,51,379.66/- (रु. सैंतीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ उन्यासी एवं पैसे छियासठ मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

अर्जन नगर, कोटला मबारकपर, नई दिल्ली-110003 में स्थित आवासीय निर्मित सम्पत्ति, सम्पर्ण प्रथम तल, टैरेस/छत के अधिकार के बिना, सम्पत्ति प्लॉट नं. 89, एमसीडी नं. सी-826, एरिया माप 100 वर्ग यार्ड्स (अर्थात् प्लॉट एरिया माप 83.61 वर्ग मी. अर्थात 900 वर्ग फीट, कवर्ड/प्लिन्थ एरिया 350 वर्ग मी., अंतरित तल का कवर्ड/प्लिन्थ एरिया 70 वर्ग मी.) जो खसरा नं. 120 में शामिल है, का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दीः पूर्वः गली, पश्चिमः नैरो लेन, उत्तरः प्लॉट नं.

तिथि: 28.03.2024 प्राधिकत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

90, दक्षिणः प्लॉट का भाग।

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

(formerly Fullerton India Credit Company Limited) **कॉर्पोरेट कार्यालयः** 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101,102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेक मैक्सिटी, बांद्रा कुरिया कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई — 400051

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ८(१) के तहत) जबिक अधोहस्ताक्षरी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी

लिमिटेड) का अधिकृत अधिकारी के रूप में जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनामल्ली हाई रोड मदुरावॉयल चेन्नई, तमिलनाडु–600095 और कॉर्पोरेट कार्यालय मंजिल 5 और 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, लेक कैसल के पीछे, पवई, मुंबई 400 076, है, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और शक्तियों के प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पिटत धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त, दिनांक 18.12.2023 को डिमांड नोटिस जारी किया गया, जिसमें उधारकर्ता (1) पंकज बल (2) अंगुरी देवी (3) बालकिशन ऋण खाता संख्या # 173020910596142 और 173020910760161 के तहत रु. 27,26,958.71/— (सत्ताईस लाख **छब्बीस हजार नौ सौ अड्डावन और इकहत्तर पैसे मात्र)**, की नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बुलाया गया हैं।

उधारकर्ता(ओं) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत इस 27 मार्च 2024 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को संपत्ति के साथ लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन रुपये की राशि के लिए फलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के शुल्क रु. 27,26,958.71/- (सत्ताईस लाख छब्बीस हजार नौ सौ अड्डावन और इकहत्तर पैसे मात्र), और उस पर ब्याज के अधीन होगा।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरणः वह सभी संपत्ति जिस पर आवासीय मकान बेयरिंग संख्या 2906 अंकित है। 650 वर्ग फूट का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल (60 वर्ग गज) आवासीय कॉलोनी जिसे डीएलएफ सिटी फेज -4 (पूर्व में डीएलएफ कुतुब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता था) के रूप में जाना जाता है, जो चक्करपुर तहसील और जिले गृड्गांव हरियाणा. के गांव के आसपास स्थित है। निम्नानुसार सीमाओं से

घिरा हुआः पूर्व-प्लॉट नं. परिचम सड़क, उत्तर-प्लॉट नं. २९०८, दक्षिण-प्लॉट नं. २९०४. स्थानः गुड्गांव दिनांकः ३०.०३.२०२४ हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फूलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

सस्त्र प्रभाग, तीसरी मंजिल, पूर्वी विंग, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली

(ईमेल- horecovery@pnb.co.in / hosastrawilful@pnb.co.in)

सी-65, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-21

कारण बताओ सूचना दिनांकः 04.03.2024 1. मैसर्स आइसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग 2. श्री. सेबेस्टियन पिकाट (निदेशक)

कार्यालय:- दुकान नंबर 203, दूसरी मंजिल, गंज प्लाजा ४२, हजरतगंज, लखनऊ-226001 4. श्री. प्रभात कुमार श्रीवास्तव 3. श्री. पंकज टंडन (निदेशक) (निदेशक) प्रथम तल, स्प्लेंडर टावर्स गोल्फ

मकान नंबर— 1282, सेक्टर—31, गुड़गांव— कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-65, गुड़गांव, हरियाणा—122018

5 श्री अंदलीब जैन (निदेशक)

एवं कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (उधारकर्ता)

सी-3 / 1203, वाटिका सिटी, सेक्टर-49, गुड़गांव-122001 प्रिय महोदय / महोदया,

रेग: बैंक के साथ "विलफुल" के रूप में मैसर्स आइसोलक्स कोर्सन इंडिया इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ऋण खाते में डिफॉल्ट की पहचान के लिए कारण बताएं। कृपया बैंक द्वारा जारी दिनांक 06.10.2023 के नोटिस का संदर्भ लें, जिसमें उपरोक्त ऋण खाते में जानबूझकर की गई चूक की घटनाओं को इंगित किया गया है और आपको प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर चूक को सुधारने के लिए कहा गया है। उक्त नोटिस. हालाँकि, उधारकर्ता और उसके पक्षों से कोई उत्तर नहीं मिला।

मामले के तथ्य आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप गठित विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान समिति ('पहचान समिति') के समक्ष रखे गए थे। समिति ने 09.02.2024 को आयोजित अपनी बैठक में, मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि खाते में डिफ़ॉल्ट की घटनाएं हुई हैं जो जानबूझकर और पर्याप्त हैं, जिससे उधारकर्ता और उसके पक्षों को 'के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। इरादतन चूककर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों सेः

निधियों का विचलनः

फोरेंसिक ऑडिटर मेसर्स ग्रांट थॉर्नटन के सामने ऐसे मामले आए हैं, जिसमें कंपनी द्वारा फंड के डायवर्जन और वित्तीय लेनदारों को धोखा देने का संकेत मिला है। इसके अलावा, हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जिनमें कंपनी ने अपने संबंधित पक्षों से बकाया की वसूली के लिए कोई मध्यस्थता / मुकदमा शुरू नहीं किया। हमने कई विसंगतियाँ भी नोट कीं अनुचित लेखांकन, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने, कंपनी द्वारा दर्ज किए गए लेनदेन से संबंधित महत्वपर्ण सहायक दस्तावेजों की अपर्याप्तता और वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा उल्लिखित योग्यताओं से संबंधित"।

🕨 कंपनी को एनएचएआई से ईपीसी परियोजना अनुबंध दिया गया था, जिसके लिए एनएचएआई ने 31.74 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की थी। मोबिलाइजेशन अग्रिम का उपयोग मुख्य रूप से संबंधित पक्षों, कर्मचारी लाभ व्यय और अन्य व्यावसायिक विक्रेताओं को भुगतान के लिए किया गया था।

🕨 वित्त वर्ष 2013—14 और वित्त वर्ष 2015—16 के लिए एबीएस और वित्त वर्ष 2016—17 और वित्त वर्ष 2017–18 के वित्तीय विवरण से संकेत मिलता है कि कंपनी का राजस्व 2476.35 करोड़ रुपये (कुल राजस्व का लगभग 93:) संबंधित से है। वे पार्टियाँ जिनके लिए कंपनी ने ऑडिटर को कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है।

🕨 31 मार्च 2018 तक, कंपनी का कुल बकाया देनदार रु. जिसमें से 336.67 करोड़ रु. 294.13 करोड़ संबंधित पक्षों से थे जिसे कंपनी ने वसूल नहीं किया। 🕨 फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने एक विक्रेता को 18.65 करोड़ रुपये का

भुगतान किया था और 15.76 करोड़ रुपये का उपयोग एक बार के विक्रेताओं को भुगतान के लिए किया गया था। एचडीएफसी बैंक (कंसोर्टियम के बाहर) से 02.69 करोड रुपये की राशि का एक लेनदेन एक बार विक्रेता के माध्यम से किया गया था जो प्रकृति में संदिग्ध था और खातों की किताबों में इस लेनदेन का विवरण "भुगतान एंगस्ट रेलवे पंक्ति" के रूप में उल्लेख किया गया था जिसके लिए कोई समर्थन नहीं था प्रबंधन की ओर से ऑडिटर को दस्तावेज उपलब्ध कराये गये. 🕨 आइसोलक्स कोर्सन इंडिया सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जेवी से प्राप्त अग्रिमः

आइसोलक्स कोर्सन इंडिया सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जेवी से प्राप्त वार्षिक औसत शेष राशि 100.00 करोड़ रुपये से अधिक थी। इसके अलावा, प्राप्य शेष में साल-दर-साल वृद्धि हुई, जिसे कंपनी द्वारा एकत्र नहीं किया गया है।

🕨 संबंधित पक्षों से भारी देनदार शेष (प्रतिधारण धन सहित): कुल प्राप्य का 99: छह संबंधित पक्षों से है और उनके ग्राहकों से कोई शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी।

🏲 कंपनी द्वारा देय देनदारियों का विश्लेषणः वित्त वर्ष 2016—17 और वित्त वर्ष 2017— 18 की अवधि के लिए खातों की पुस्तकों की अनुपलब्धता के कारण, लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा देय असुरक्षित ऋण की वर्तमान स्थिति का पता लगाने में असमर्थ थे। आइसोलक्स कोर्सन इंडिया सी एंड सी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जेवी के देय शेष में लगातार गिरावट हो रही थी, जो दर्शाता है कि भुगतान कंपनी के अन्य लेनदारों को प्राथमिकता देते हुए किया

🕨 कंपनी द्वारा देय मोबिलाइजेशन अग्रिमः कंपनी के चार संबंधित पक्षों सोमा आइसोलक्स सूरत हजीरा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, सोमा आइसोलक्स वाराणसी औरंगाबाद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड से कुल मिलाकर 710.32 करोड़ रुपये का मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त हुआ। लिमिटेड, साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसिमशन कंपनी लिमिटेड कंपनी को सौंपी गई/उप-अनुबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक सामग्री/उपकरण की खरीद के लिए। समीक्षा अवधि के दौरान, संबंधित पक्षों को देय मोबिलाइजेशन अग्रिमों में लगातार गिरावट देखी गई। अग्रिम के वास्तविक उपयोग की पुष्टि के लिए लेखा परीक्षकों को कोई सहायक दस्तावेज (जैसे अनुबंध की प्रति, किए गए खर्चों का विवरण आदि) प्रदान नहीं किया गया था।

उपरोक्त सभी लेन-देन से संकेत मिलता है कि उधारकर्ता ने बैंक के धन का दुरुपयोग किया है। यदि आप पहचान समिति के उपरोक्त निष्कर्ष से व्यथित महसूस करते हैं, तो यदि आप चाहें तो आप पहचान समिति के समक्ष एक निवेदन/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तािक आप विचार कर सकें और कारण बता सकें कि आपको "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीक त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आपका सबिमशन/अभ्यावेदन इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाना चाहिए और या तो उप को भेजा जाना चाहिए। महाप्रबंधक, सस्त्र प्रभाग, तीसरी मंजिल, पूर्वी विंग, पंजाब नेशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, सेक्टर 10, द्वारका,

नई दिल्ली-110075 या जोनल सस्त्र दिल्ली के माध्यम से। यदि हमें आपका कोई निवेदन / प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आपके पास पहचान समिति के निष्कर्ष के खिलाफ अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं है। कृ पया ध्यान दें कि इस नोटिस के खिलाफ आपके अभ्यावेदन को प्रस्तृत करने / नहीं प्रस्तृत

करने के अनुसार, पहचान समिति इरादतन चूककर्ता पर आरबीआई मास्टर परिपत्र के संदर्भ में उचित कार्रवाई करेगी। अधोहस्ताक्षरी आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप गठित पहचान समिति का सदस्य है और पहचान समिति ने अधोहस्ताक्षरी को अपने हस्ताक्षर के तहत यह कारण बताओ नोटिस भेजने

> (ई.जे. जेरोम जॉन) पहचान समिति के सदस्य

कब्जा सूचना पंजाब नैशनल बैंक 🕒 punjab national bank मंडल सस्त्राः 01 पल्टन बाजार, ...the name you can BANK upon! पीएनबी हाउस देहरादून, उत्तराखण्ड।

(अचल सम्पत्ति हेत्) एतदुद्धारा, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, **पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफैसी) में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए व प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियम 2002 के साथ पटित थारा 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शवितयों के अन्तर्गत निम्न वर्णित ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं को मांग सचना पत्र निम्नवर्णित तिथियों को भेजे गए कि वे उक्त नोटिस/सों की प्राप्ति/नोटिस जारी करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर सम्बन्धित मांग सूचना पत्र में दी गयी राशि का भुगतान कर दें। ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं द्वारा ऋण राशि का भुगतान न कर पाने के कारण सभी ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की थारा 13(4) एवं सपिटत नियम 8 के अन्तर्गत् प्रदल्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक/भौतिक कब्ज निम्नवर्णित तिथियों को ले लिया है। ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं को विशिष्टितः और सर्वसाधारण को सामान्यतः सर्तक (सावधान) किया जाता है कि वह निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ कोई लेन–देन न करें। जमान्ती आस्ति को त्मकममउ कराने हेत् उपलब्ध समय सीमा के सम्बन्ध में ऋणी/यों/बंधककर्ता/ओं /गारन्टीकर्ता/ओं का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की आकर्षित किया जाता है। सम्पत्तियों से किया गया किसी भी प्रकार

चिपकाये गये मांग नोटिस के शाखा / ऋणी बंधक सम्पत्ति का विवरण कब्जा नोटिस अनुसार बकाया के नाम की तिथि रकम शाखाः सहस्त्रधारा रोड, देहरादून वंधक सम्पत्ति फ्लैट नं. 81, भूतल पर एमआईजी इन्दिरापुरम् फेस-1, देहरादून सुपर क्षेत्रफल माप 05.01.2024 27.03.2024 11,94,850.01 ऋणी/ बंधककर्ताः- श्री मोहित कुमार | 38 वर्गमीटर विक्रय विलेख रजिस्ट्रर्ड बुक नं. 1, जिल्द 623, पेज 299 से 320 एंव दस्तावेज नं 05.01.2024 पुत्र श्री देशराज और श्रीमती मधु देवी 3254 दिनांक 19.12.2014 सम्पत्ति स्वामी श्री मोहित कुमार पुत्र देशराज एवं श्रीमती मधु देवी पत्नी भविष्य का व्याज पत्नी मोहित कुमार। मोहित कुमार। सीमाएँ- उत्तर- 15 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण- फ्लैट नं. 95 एमआईजी, पूर्व- फ्लैट और आकस्मिक नं. 82 एमआईजी, पश्चिम-फ्लैट नं. 80 एमआईजी, शुल्क 01.01.2024 प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक दिनांकः 29.03.2024 स्थान – देहरादून

U GRO CAPITAL LIMITED GRO चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, क्रिया, मूंबल 400070

का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक के ऋण भार के निम्नलिखित वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज व अन्य खर्चे के अधीन होगा।

HCFDELSEC00001009498

बीएमबी म्युजिक एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- बी-175 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड,

जयपुर-302019, राजस्थान, भारत

ईमेल आईडी: kcbokadia.kcb@gmail.com,

फोन नंबर: 8875779779

सीआईएन: L18101RJ1991PLC014466

आम सूचना

यह बीएमबी म्युजिक एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड के

विवरण सही समय पर शेयरधारकों को फिर से बताएगी।

बीएमबी म्युजिक एंड मैग्नेटिक्स लिमिटेड

"प्रपत्र सं. आईएनसी—26"

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से

दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाधार पत्र में

प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4) और कंपनी

(निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले में

ऑरेंज अशोक विंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड

(CIN: U40300DL2011PTC274842)

203. एसेट न. ८ दूसरा फ्लोर वर्ल्डमार्क २, एयरोसिटी

हॉस्पिटैलिट, डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037 में स्थित है

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 और 13 के

साथ कंपनी अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और

उसके तहत आवेदन करने का प्रस्ताव करती है कंपनी

का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"

से "तमिलनाड् राज्य"-आरओसी वैन्नई में स्थानांतरित

करने के लिए तारीख सोमवार 25 मार्च, 2024 को

आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष

संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन

थवित या तो **निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल**

कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in)

में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शमध पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध

का कारण उहिलखित हो के साथ अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन

की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय

तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय भवन, सीजीओ

कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 परो पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्व कर सकते है और

इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त पंजीकृत

ऑरेंज अशोक विंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड

सी/ओ ऑफिस नं. : 203, एसेट नं. 8 दूसरा फ्लोर वर्ल्बमार्क २. एयरोसिटी हॉस्पिटैलिट, डिस्ट्रिक्ट, नई

पता : 133, अवैयार स्ट्रीट, थेंडरल नगर के के

नगर, तिरुविरापल्ली, तमिलनाड्-620021

कृते आवेदक की ओर से

डीआईएन : 10105869

NOTICE

Notice is hereby given that the Certificate(s) for the under

mentioned Equity Shares of the Company (VESUVIUS INDIA

LIMITED)have been lost / misplaced and the holder of

the said Equity Shares have applied to the REGISTERER

of the Company (CB Management Services (P) Ltd., P-22, Bonde

Road , Kolkata -700018) to issue duplicate Share Certificate(s)

Any person who has a claim in respect of the said Shares

should lodge the same with the Company at its Registered Office

within 7 days from this date else the Company will proceed

to issue duplicate certificate(s) to the aforesaid applicants without

गोपाला कृष्ण पिल्लई दिनेश कुमार

की पृष्टि की मांग की गई हैं।

कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

दिनांक : 30.03.2024

any further intimation.

SHARE

www.readwhere.com

FOLIO

स्थान : नई दिल्ली

जिसका पंजीकृत कार्यालय : सी/ओ ऑफिस न

के निदेशक मंडल की ओर से

प्रेरणा शर्मा

कंपनी सचिव

बैठक नहीं हो सकी।

दिनांक: 29 मार्च, 2024

दिनांकः 30.03. 2024.

स्थानः दिल्ली

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी यूग्रो कैपिटल लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 4थी मंजिल, टावर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070 में वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन ,नियम 2002 (2002 का 54) अधिनियम के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटिस में उल्लिखित राशि को ब्याज सहित चुकाने के लिए एक मांग नोटिस जारी किया। उस पर, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर उधारकर्ताओं द्वारा राशि चकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे स्ताक्षरकर्ता ने धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम के नीचे उल्लिखित दिन, माह और वर्ष पर विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नोटिस में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए युग्रो कैपिटल लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा। सुरक्षित

संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। मांग नोटिस और तिथि नोटिस राशि नगर निगम क्रमांक 2396 (पुराना) और 4586 1. मैसर्स गौरी साड़ीज, 2. उमा शंकर शर्म (नया), वार्ड क्रमांक ट५ क्षेत्रफल 191 वर्ग 3. विजय कुमार शर्मा, 4. कैलाश चंद शर्मा दिनांक 17-01-2024 गज की अचल संपत्ति का वह सारा टुकड़ा 27–03–2024 को 5. कुसुम लता, 6. प्रवीण शर्मा और पार्सल यानी 159.75 वर्ग. मीटर, कूचा राशि : रूपये 3,93,13,930 / -ऋण खाता संख्याः बीबी गोहर स्थित, चरखेवालान, चावडी 11-01-2024 तक HCFDELSEC00001002551 और

> हस्ता/- सोहम भट्टाचार्य यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

बाजार, दिल्ली - 110008

हाउासग फाइनस लिमटेड H कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015 इसरी मंजिल, एससीओ-19, सरस्वती विहार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चक्करपुर, (एम.जी. रोड मेट्रो स्टेशन के पास) गुडगांव हरिचाणा -122001

सांकेतिक कब्जा सचना जबकि अधोहरताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिं**ग **फाईनेंस लिमिटेड**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित हैं उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर

आरएलएम- श्री आशुतोष कुमार - 9870303707, सीएलएम- मुकुल शर्मा - 8285415168

भगतान करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अघोहरताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ र्लन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकरिमक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर

मांग सूचना की तारीख कर्जदार/गारन्टर के नाम

बकाया राशि अचल सम्पतियों का विवरण कब्जा सूचना की तिथि एवं पता रेहायशी प्लॉट क्षेत्रफल 3 मारला अर्थात 90.50 वर्ग गज. आवेदन नं. ₹ 49,53,555/-11-09-2023 खेवत / खाता नं. 101 में से, म्यू नं. 229, किला नं. **15(8-0)** DL/OKH/OKHL/A000000133 27-03-2024 श्री विकास शर्मा, श्री योगेश शर्मा किटा 1 रक्बा 8 कनाल 0 मारला वार्ड नं. 8 में 3 / 160 शेयर 05-09-2023 तक जोकि आन्धरुन नगर परिषद के अंतर्गत, तहसील सोहना, और श्रीमती मीनू शर्मा, दोनों: + ब्याज इत्यादि जिला. गुड़गांव, हरियाणा—122103 में स्थित, चौहदी: पूरव में मकान नं. 301, वार्ड नं. 13, - 17 फीट 8 इंच अन्य का प्लॉट, पश्चिम में – 17 फीट 8 सोहना, गुड़गांव, हरियाणा-इंच रास्ता 18 फीट चौड़ा, उत्तर में – 46 फीट सतपाल का 122103 मकान, दक्षिण में – 46 फीट विष्णुकांत का मकान दिनांक : 29-03-2024, स्थान : गुड़गाँव प्राधिकृत अधिकारी, हिंद्जा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आसफ अली रोड दिल्ली शाखा Union Bank 4/14ए आसफ अली रोड, विल्ली-110002 दरभाष : 011-23267867, 23268551 ई-मेल : ubin0541371@unionbankofindia.bank

कृ**ब्जा नोटिस** ज<u>ब</u>क्ति अधोहस्ताक्षरी वित्तीय स्ंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 का यम संख्या 54) के तहत और धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युनियन बैंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोड ल्ली का अधिकृत अधिकारी है। (12) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, दिनांक 03.06.2022 को एक इमांड नोटिस जारी किया गया, जिसमें उधारकर्ता **मेसर्स अशोका पेपर प्रोडक्ट्स से नोटिस में उल्लिखित राशि रुपये चुकाने का** आह्वान किया गुया। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर 1,06,72,289.78 (रुपए एक करोड़ छह लाख बहत्तर हजार

शेयरधारकों की जानकारी के लिए है कि अंत में प्रक्रियात्मक उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने मुद्दों के कारण एनएसडीएल से बेनपोस प्राप्त न होने के धारा 1314) के तहत उसे प्रदर्त्त शुक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर भौतिक कब्बा कर लिया है। उक्त अधिनियम इस, 2**6 मार्च 2024** को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित किया गया। कारण रिमोट ई-बोटिंग जो 27.03.2024 से

29.03.2024 तक शुरू होने वाली थी और ष्र रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया ज़ाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के 30.03.2024 को होने वाली कंपनी की वार्षिक आम प्राथ कोई भी लेन-देन **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोड, दिल्ली के शुल्क के अधीन होगा। 1,06,72,289.78 रुपए एक करोड़ छह लाख बहत्तर हजार दो सौ नवासी और पैसे अठहत्तर मात्र)।** और उस पर ब्याज। सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने उधारकर्ता को उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित कंपनी वार्षिक आम बैठक की संशोधित तारीख और अन्य

अचल संपत्ति का विवरण अंपृत्ति का वह सब भाग जिसमें संपृत्ति संख्या **संपत्ति संख्या 688/217, दूसरी मंजिल पर दुकान, बिना छत के अधिकार, अजयमार्केट,** वार्ड संख्या (x, चावड़ी बाज़ार, दिल्ली-110006 प्राधिकृत अधिकारी

मालिक: श्री जियाउद्दीन कुरेशी पुत्र मोहम्मदद

युनियन बैंक ऑफ इंडिया दिनांक: 26.03.2024 स्थान: दिल्ली

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

4/14ए आसफ अली रोड, दिल्ली-110002

बकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (2002 क ायम संख्या 54) के तहत और धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए युनियन बेंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोउ लाख दस हजार नौ सौ सौलह रुपये और पैसे इकत्तीस मात्र) चुकाने का आह्वान किया गया।) उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख उधारकर्ता द्वारा राशि चकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता

वेशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति वे 1थ कोई भी लेन-देन युनियन बैंक ऑफ इंडिया, आसफ अली रोड, दिल्ली द्वारा 43,10,916.31 रुपये की राशि के शत्क के अधीन हीगा। (तैतालिस लाख दस हजार नौ सौ सौलह रूपये और पैसे इकत्त्वीस मात्र) और उस पर ब्याज। सुरक्षित संपत्तियों को भु तपु उधारकर्ता को उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारों (8) के प्रावधानों की ओर

वार्ड नंबर IX, चावडी बाजार, दिल्ली-110006

दिनांक: 26.03.2024 स्थान: दिल्ली

आकर्षित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

ते का वह सारा हिस्सा जिसमें संपत्ति संख्या संपत्ति संख्या 688/217, दूसरी मंजिल पर दुकान, बिना छत के अधिकार, अजय मार्केट प्राधिकृत अधिकारी युनियन बैंक ऑफ इंडिया Corporate Identification Number: L70100MH1985PLC301881 Contact Person: Mr. Rajiv Darji, Managing Director and CFO PROMOTERS OF OUR COMPANY IS MR. RAJIV DARJI

Contact Details: +91 77159 54966 | Email-ID:compliance@kcdindustries.com | Website:www.kcdindustries.com

indirectly in the United States of America or otherwise outside India. This is not an offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated 19th May 2023 ('Letter of Offer') filed with BSE Limited, the stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed ('BSE') and Securities Exchange Board of India ('SEBI').

PAID-UP EQUITY SHARES ON WHICH CALL MONEY IS TO BE PAID

payment of First and Final Call Money on partly paid-up shares has been issued to such persons who were members of the company as on record date i.e. 10th August 2023. The call payment period has since expired on 01st September 2023

face value and Rs. 12.75/- towards securities premium) per partly paid-up equity share as "Third Reminder Notice" for shares on which the First and final Call remains unpaid after first and second reminder notice. The payment period begins from 01st April 2024and ends on15th April 2024 (Both days inclusive). For

further details shareholders are requested to refer Third Reminder Notice sent on 28th March 2024 on their registered email id or address, as applicable.

shall render the partly paid-up Rights Shares, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the companies Act, Article of Association and Letter of offer.

All correspondence in this regard may be addressed to Skyline Financial Services Private Limited at ipo@skylinerta.com

For KCD Industries India Limited Rajiv Darji

Date: 29th March 2024 Managing Director and CFO Place: Mumbai DIN: 02088219

क्षेत्रीय कार्यालयः द्वितीय तल, महालक्ष्मी मॉल, सी-2, अचल संपत्ति आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद (उ०प्र०)— 201001 के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु **ई-नीलामी विक्रय नोटिस।** आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित), कब्जा प्रतिभृति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,** द्वारा लिया गया है, को **''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है''** के आधार पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

र्न	नीचे उल्लिखित ऋणी ऋणी(ओ)/गारन्टर(ओं) की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक <u>16.04.2024</u> को बेचा जाएगा।								
क्र सं	शाखा / ऋणी / गारन्टर के नाम एवं विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	कब्जे का प्रकार भौतिक /सांकेतिक	ऋणी / गारन्टर से वसूल की जाने वाली देय राशि (रू०)	आरक्षित मूल्य (रू०) ईएमडी बोली वृद्धि राशि (रू०)	नीलामी की तिथि व समय			
1	शाखाः एआरबी, गाजियाबाद ऋणीः मैससं एपीएम इंटरनेशनल, प्रोपराइटर द्वारा, सी-65, द्वितीय तल, कीर्ति नगर नई दिल्ली- 110015, पता 2: सी-43, सेक्टर-6, गौतम बुद्ध नगर, उ0प्र0- 201301, प्रोपराइटर/गरन्टरः श्री पवन बंसल, सी-65, द्वितीय तल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली- 110015, गारन्टरः 1. श्री गुनीत मुन्दल, थी-1/32, तृतीय तल मालविया नगर, नई दिल्ली- 110017, 2. श्री जितेन्द्र काम्बोज, फ्लैट नं0 905, टॉवर 19 लोटस बुलेवार्ड सेक्टर-100 नोएडा- 201304, 3. श्री पवन मुन्दल, थी-1/32, तृतीय तल मालविया नगर, नई दिल्ली- 110017, गारन्टर/बंधककर्ताः 1. कुमारी परस्रोतम लाल शर्मा, थी-82, ऋषि नगर रानी बाग दिल्ली- 110034, 2. श्री मथुर बाई सिंह, सीजेडबी/64सी, जनकपुरी नई दिल्ला- ई दिल्ली- 110058, इसके अलावाः सी-1ए/71सी, द्वितीय तल जनव	ए-111) माप क्षेत्रफल 65 वर्ग गज, प्लॉट नं0 5 एवं 6, खसरा नं0 561/221 एवं 220 मिन का भाग, स्थित ग्राम सेलमपुर माजरा मादीपुर दिल्ली, न्यू कॉलोनी, ऋषि नगर, शकूर बस्ती दिल्ली- 110034, सम्पत्ति स्वामी श्री परसोतम लाल शर्मा। सीमाएँ:- उत्तरः सम्पत्ति नं0 वी-81, दक्षिणः सम्पत्ति का भाग, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः अन्य की सम्पत्ति।	कब्जा	रू0 81,56,940.66 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	〒0 61,75,000/一 〒0 6,17,500/一 〒0 60,000/一	16.04.2024 प्रातः 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक बंधक सम्पत्ति के निरिक्षण की तिथि 08.04.2024 शाम 04.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक			
2.	शाखाः एआरबी, गाजियाबाद ऋणीः मैससं एपीएम इंटरनेशनल, प्रोपराइटर द्वारा, सी-65, द्वितीय तल, कीर्ति नगर नई दिल्ली- 110015, पता 2: सी-43, सेक्टर-6, गीतम बुद्ध नगर, उ०प्र०- 201301, प्रोपराइटर/गारन्टरः श्री पवन बंसल, सी-65, द्वितीय तल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली- 110015, गारन्टरः 1. श्री गुनीत मुन्दल, बी-1/32, तृतीय तल मालविया नगर, नई दिल्ली- 110017, 2. श्री जितेन्द्र काम्बोज, फ्लैट नं0 905, टॉवर 19 लोटस यु तृतीय तल मालविया नगर, नई दिल्ली- 110017, गारन्टर/बंधककर्ताः 110034, 2. श्री मधुर वाई सिंह, सीजेडबी/64सी, जनकपुरी नई	बंधक आवासीय फ्रीहोल्ड अचल सम्पत्ति अर्थात् पलैट नं0 64 सी, द्वितीय तल, ब्लॉक-सी, 2बी, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058, सम्पत्ति स्वामी श्री मधुर बैन सिंह एवं श्रीमती प्रीत कंवल। सीमाएँ:- उत्तरः रास्ता, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः प्रवेश/फ्लैट- 65 सी, पश्चिमः फ्लैटः 63 सी। लेवार्ड सेक्टर-100 नीएडा- 201304, 3. श्री पवन मुख्	नी बाग दिल्ली-		₹0 1,04,81,400/- ₹0 10,48,140/- ₹0 50,000/-	16.04.2024 प्रातः 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक बंधक सम्पत्ति के निरिक्षण की तिथ 08.04.2024 शाम 04.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक			

CERTIFICATE NOS SHARES IN NAME OF 10142401-10142500 100 S G GUPTA 17835 12615301-12615400 42564 100 S11504 15077 9866601-9866700 100 S G GUPTA 12446301-12446400 100 40874 59878 14346701-14346800 100 60015 14360401-14360500 100 14407301-14407400 100

DISTICTIVE NOS. NO. OF REGISTERED

पंजीकरण हेतु लॉगिन और बोली-प्रक्रिया नियम वेबसाइट:-https://www.mstcecommerce.com/acutionhome/ibapi/index.jsp देखें। विक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया दिए गए लिंक:-https://www.unionbankofindia.co.in को देखें। सम्बन्धित अधिकारी, मोबाइल नं0:- 8700251062 दिनांक- 29.03.2024

जनकपुरी नई दिल्ली- 110058, इसके अलावाः सी-1ए/71सी, द्वितीय तल जनकपुरी नई दिल्ली- 110058

स्थान -गाजियाबाद

पंजीकृत कार्यालय: 4था तल, इंजीनियरिंग सेन्टर, 9 मैथ्यू रोड, ओपेरा हाउस, चरणी रोड www.fintreefinance.com

2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

मै. फिनट्री फाइनांस प्रा.लि. (यहां के बाद "एफएफपीएल" वर्णित) द्वारा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि

अधोलिखित ऋणधारकों जिन्होंने मै. फिनट्री फाइनांस प्रा.लि. से सम्पत्ति के प्रति ऋण प्राप्त की है, वे अपने ऋण

की समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं तथा उनकी ऋण को भारतीय रिजर्व बैंक

द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति घोषित कर दिया गया है। ऋणधारक ने ऋण के लिये

अचल सम्पत्ति की प्रतिभृति उपलब्ध कराई है जिसका विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋणों तथा ऋणधारक द्वारा

मै. फिनटी फाइनांस प्रा. लि. को आज की तिथि को देय बकाये का विवरण नीचे दर्शाया गया है। एतदद्वारा

ऋणधारकों के साथ ही साथ आम जनता को सुचित किया जाता है कि मै. फिनट्री फाइनांस प्रा.लि., प्रतिभूत

क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण

तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत अधीलिखित

ऋणधारकों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है। यदि निम्न ऋणधारक इस सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर आगे

के ब्याज तथा अन्य चार्जेज, यदि कोई हो, के साथ उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई बकाया देयताओं का भगतान

करने में विफल होते हैं तो अधोहस्ताक्षरी सम्पत्ति का कब्जा तथा उसकी बिक्री करने सहित सरफैसी अधिनियम

की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रतिभति क्रेडीटर को प्रदत्त किसी एक या उससे अधिक शक्तियों का

प्रतिभत परिसम्पत्ति का विवरण: सम्पत्ति प्लॉट नं. 376, खसरा नं. 18/5, ब्लॉक-बी, विकास विहार, विकास नगर, उत्तम

प्रयोग करेंगे। सर्व-साधारण को सलाह दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय नहीं करें।

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

के लिए अधिकृत किया है।

Lucknow

फिनटी फाइनांस प्रा. लि. (ईस्ट), मुम्बई 400004 वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रतिभूतिकरण अधिनियम, २००२ की Central Bank of India मांग सूचना १३(२) अक्षरधाम शाखा, यू 38 बी स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, नई दिल्ली वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्ततन (सरफेसी) अधिनियम

नगर, नई दिल्ली-110059 का सभी भाग तथा हिस्सा

तिथि: 30.03.2024

2002 की घारा 13(2) के तहत कर्जदार को मांग सूचना। यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतदद्वारा कर्जदारों / गारंटरों को

उनकी गांरटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भूगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सुचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पटटे पर देने या अन्य लेनदेन नहीं कर सकते है। बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण 13(2) सूचना की तिथि एवं राशि

प्रतिभूत अचल सम्पत्ति का विवरण कर्जदार एवं गारंटर का नाम (प्रतिभूत परिसंपत्ति / बंधककृत संपत्ति / दृष्टिबंधककृत कर्जदार : वस्तओं का विस्तत विवरण) सुश्री निशा सिंह अचल परिसंपत्ति : पुत्री श्री अशोक सिंह अचल संपत्ति भूमि एवं भवन का पूर्ण विस्तृत विवरण 662/3 बी, प्रथम तल, पंडित पार्क, तथा इसकी सीमाओं के साथ स्वामित्व विलेख के पटपड्गंज रोड, ग्राम घोंडली विवरण इलाका शाहदरा, दिल्ली- 110051 बीबीएन ट्रेडिंग कंपनी स्वामिनी सुश्री निशा सिंह पुत्री श्री अशोक सिंह

दिनांक: 28.03.2024

स्थानः नई दिल्ली

हजार नौ सौ उनतीस मात्र) आवासीय प्रथम तल का साभ्यिक बंधक, छताधिकारों सूचना की तिथि 19.03.2024 के बिना, संपत्ति सं. 662/3-बी के भाग पर निर्मित, से पूर्ण एवं अंतिम भ्रगतान की खसरा सं. 467/3/4 में से, पंडित पार्क की आबादी, पटपड्गंज रोड, ग्राम घोंडली के क्षेत्र, इलाका शाहदरा, दिल्ली - 110051 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 45.14 1/11144, सुभाष पार्क, कीर्ति मंदिर वर्ग मीटर है, जो सुश्री निशा सिंह पुत्री श्री अशोक सिंह के नाम पर, तथा निम्नानुसार परिसीमित है :-के समीप, शाहदरा, दिल्ली-110032 उत्तर- 30 फुट चौडी सडक के नीचे दक्षिण- अन्य की संपत्ति पूर्व- गली के नीचे पश्चिम- उक्त संपत्ति का भाग

तिथि तक अनुसूची में अंकित ब्यान की प्रयोज्य दर/रों पर भावी ब्याज और साथ में अनुबंध के निबंधनों के अनुसार तथा / अथवा कानून के अनुसार आप से वसूलीयोग्य आकरिमक व्ययों, शुल्कों एवं लागतों के साथ, इस सूचना की तिथि से साठ दिवसों के अंदर। आपका ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के सम्बन्ध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की

वारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी,

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अक्षरधाम शाखा, नई दिल्ली

KCD INDUSTRIES INDIA LIMITED

Registered Office: 1101/1102, Techno Park, Link Road, Borivali (West), Mumbai - 400 092 This is only an Advertisement for the information purpose and not for Publication, distribution, or release, directly or

THIRD REMINDER CUM DEMAND NOTICE TO THE HOLDERS OF PARTLY

In terms of provisions of Companies Act, 2013 (Act) read with the relevant rules made thereunder, notice for

The Board of Directors of the company at its meeting held on 26th March 2024 approved the third reminder cum demand notice for payment of First and Final Call Money of Rs. 13.50/- (comprising Rs. 0.75/- towards

Please note that the failure to pay the First and Final call money pursuant to the demand notice, as aforesaid.

OSBI मारतीय स्टेट बैंक केतुम के रहेन कोठका, तांक कर, केतुम, कीती केतुम के रहेन कोठका, तांक करा, का कर कर कर

मागणी सूचना

PUBLIC NOTICE PUBLIC NOTICE
NOTICE in New James 1, 1987
Morany C. Hab. Learn's Markes at Dr. Bakerany C. Hab. Learn's Markes 1, 1987
Learn's Markes 1

वक्काकी रक्तमः दिनांच २९.०२.२०२४ गेजी हेत रक्तम क.३६,४५,४६५/ - (समये प्रतीस लाग वेषेचाळीस हजार एकते पासक कक्त) तसेच उपनेस सम्बंध कमारणने स्वापासक प्रार्थनीय स्वर्

स्थावर मात्रममेथे वर्णन फर्नेट क.१७२, १ता मनता, टीपरी रीमहेन्सी, प्लॉट क.१५८, शब्द वहार, जानना फर्नेट, दिस्त्य प्रधान, ४०४४४०

विनोकः ३०.०३.२०२४ टिकागः आस्प्रमीपीमी, येलापुर प्राधिकृत अधिकारी स्टेट वैक औक इंडिया

मागणी सूचना

की पुस्ता रेपना रंग आँ की की सामा मार्थकार अंतर्ग की सामा मार्थकार अंतर्ग अंतर्ग मार्थकार मार्यकार मार्थकार मार्थकार मार्थकार मार्थकार मार्यकार मार्यकार मार्थकार मार्यकार मा

पंत्रणार्थिक प्रत्या प्रश्नां वास्त्र करूं। गांध ज्यांत स्वतंत्र करावाद्यं व्यवस्था प्राणी (एक स्वार्धं) । एवं वर्षाते विशेषीमा स्वरूप प्रत्यामा आर्थी आहे. या सुन कर्षात्र आर्थी एवं वर्षात्र कर्षात्र कर्षात्र है। एवं पूचा प्रत्यक्रमा कर्षात्र के हैं। एवं पूचा प्रत्यक्रमा कर्षात्र कर कर्षात्र कर्षात्र कर्षात्र करावाद्य कर्षात्र कर्मात्र कर्षात्र कर्मा कर्षात्र कर्मा कर्षात्र कर्षात्र कर्मा कर्षात्र कर्ष्ट कर्मा कर्षात्र कर्षात्र कर्मा कर्मा कर्मा कर्षात्र कर्मा कर्मा कर्मा कर्यात्र करात्र कर्मा करात्र कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा करात्र कर्मा करात्र कर्मा करात्र कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा करात्र करात्र कर्मा करात्र कर्मा कर्मा कर्मा करात्र कर्मा करात्र करात्र कर्मा कर्मा करात्र करात्र करात्र कर्मा करात्र कर्मा करात्र करात्र करात्र कर्मा करात्र कर

मनेशे बर्शन

पर्यट क्र.१०६, १ता मकता, के किंद, वमुना, श्री सट्छ जोम्लोबन, सर्वे क्र.५, शिसा क्र.६, गांव वासिवली, जेलुका मालामू, जिला गण्यत

विनांकः २५.०३.२०२४ डिकामः पनवेल

ART

Oate :30/03/2024

Mahalakshmi Navrang Co.Hou. Soc sce: Mumbel, Date: 30/03/2024

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby pixen that, 1) Mrs. Savadaban Crimichas Swal 2Mrs. Shalish Chimabal Shali JMr. Spair, Chanabal on 1st floor having below mentioned on 1st floor having below mentioned address. Mrs. Shareshor Chimabal Shal ided on 10/11/2015 without misking any omitiation. Mr. Shalish Chimabal Shali and Mr. Ispan Chimabal Shali the legal har for mentifacting in respect of said Hat. No.P.21 on 1st floor.

No.D-21 on 1st floor. The society hereby invites claims or objections with certified documents from the best / heirs or other claimants / the best / heirs or other claimants / placetors to the transfer of the sald share and interest of the decisied members and the capital / Property of the society for transferring the sald flat Na.D-21 on 1st Segor to Mr. Shalesh (Alimabha Shah and Shalesh (Alimabha Shah and Shalesh Shah and Shalesh (Shalesh Shalesh Shah and Shalesh Shales

pail / property of the society in such anner as are provided under the Bye-ws of the society.

aws of the society.

Hon, Secretary

For Rujesh Mundir Co-ep. Hig, Soc. Ltd.

Sharker Lane, Kandival West,

Mumbai – 400067

आर्ट होसिंग फायनान्स (इंडिया) लिमिटेड अंतर्गका वर्गाका २००, प्रीमा चाल, वेट १००० प्रकार केन्द्रिकार ८५, पछिला सबला, बेस्ट स्काप टांवर, नताबर खा करवालव: ४९, उद्योग विद्यार फेब ४, दुस्स

स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीकरिता ई-लिलावाकरिता जाहिर सूचना नुकार तथा आहे आहे ही आहे हिंदा जातावा (हिंदू) जितिकाल प्रोड़क व्यवस्थित कर १८६१) कार्या प्रति केतम करावेद्या पत् स्थापित कर से तथा है, जो की तथा प्रति क्षेत्र में तथा है, जो की तथा केता है, जाता है, जो की तथा केता है, जाता कर क्षिण्याली है, जाता क्षेत्र केता है, जाता है, जाता

खानेदाराचे		स्थावर मालमलोचे वर्णन	एकसीएल नुसार	आरक्षित मूल्य	तिलाबाची	बोली साहर
	नाव		रक्कम व मागणी	इस्टे	दिगांक आणि वेळ	करण्याची अंतिम
			सूचना दिनांक	बोली वादविश्याची रक्कम		दिनांक
38) *)	प्रसार विमित्तिः सामाना वर्तर प्र. २०५६, इस भवता, सी-सिट, प्राच्या (वर्गर) आधिका प्राचेश्वर उत्तर द्वारात, वर्गने हर दे, विका सार्वियर भवतान्त्र । प्रसार (वर-कोंगा) विकास तर्गने स्थापनी सीमान्य ।		*.tc,40,40}/-	#.₹¥,40,000/-	R.to.ex.toty	\$1.74.00.2020
		रि.११.१८.२०-२१वेनी सामनी सूचना दिनांक। १९,१०.२०११	#. 8,84,000/-	राजा स.११,०० वा. पास्त	रोची स्टार्ड,६, ०० सा. परीड	
			W.20,044/-	देषु. ०२.००वा. एवंड		

प्रापिकृत अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क तपशिल : श्री.मनोत्र कुमार पाल, मोबाईल क्रमांक ८१३०९०८२११, हमेल आयडी: manoj.pai@arthfc.com

ताको वार्त्य प्रकार भिनाहरू किन् जवनो। तीर इर जवन आवडी वर्षि पायवडे, इट प्रातीन प्रान्यन पहिल्ली/ वार्टजीस इर देश प्रकार , आवर्ष्यपुरति विकेट एक्ट्रोएकर्स २००० १७३, वर्डल सार्वाचन कृष्ट केरीतचा वार्ड्यता विवासमञ्जूषी संवासको ४५:०० परीव वर्डानका, प्रमाणकः मध्येमाम्य आक्रमकः आहे, वे आस्था मेगा प्रमान में. सीर् विक्य प्राम्बदेर विविदेश केणसाहत्र स्रमानः १२४-४३-२२-२२/२२/२२, ७२११९८१२४ १९९५ / १९२६, वी.सन्हर मसाबी मोविस्रामन स्थितः delhi@cfindla.com. संपर्क समानः :+११७९७७०१-८० शी.ध्यतं सक्ष्याकरा आणि मानवाही मानवाही

सरफावर्सी कायदा, २००२ अंतर्गत वैधानिक १५ दिवसांची विक्री सुचना

ART

आर्ट हौर्सिंग फायनान्स (इंडिया) लिमिटेड

स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीकरिता ई-लिलावाकरिता जाहिर सूचना

	शानदाराच शाव	स्थावर मालमालच वनन	रकसम्ब मागणी स्काम व मागणी स्वता विनास	आराधन मृत्य इस्ते बोली काइकियाची एकस्य	तिलावाचा दिगांक आणि वेळ	वाला सादा करण्याची अंतिम दिनांक
(m)	रमिला किन् वर्जा कर्जर:) रमिला फिलाई वर (केशीम कर्ज केशाम केशाम वर क्लाक क्रिक्ट क्लाक कर्मा वर कर्जाकम	सामान प्रति श्री स्त्राचनार विश्व हैं। सामान स्त्राचन स्त्री स्त	क. ११,५०,६१०/- ११,१४.१२ २०२२ एजी व्यागी सुचर दिनांक: १५,०६,२०२१	#.6.40,000f- #.64,000f- #.50,000f-	१६.०४.२०२४ रोजी श.२१.००वा पास्त्रते दु.०२.००वा, वर्णेत	र्भ. ०४. २०२४ रोजी सत्यं.५. ०० वा. धर्मत
च च) च च	भाव मोतीलाल विश्वति (कार्नात) म्या धमाज विश्वति (मत- विवास)	प्रस्ति क्र.०२, विस्त-४० क्षेत्र १४, १३ मी.मी., शरमाञ्चल, वर्षे आर्थकोत प्रमाणिको, विल- सी, विस्त वेजकिर सार्वे क्र.४१४/९,२,२,४१४/ ५/भाग, १२४ मा, गाव - मजीम, तस्तुका अस्ति विस्ता - प्रस्ता, स्वामाष्ट्र	क.२४,६३,२०३/- ति.१४,६२,२०२२ गेर्मा मामनी सूचना दिनोकः ३०,०६,२०२१	#.24,00,000 #.2,40,000/- #.20,000/-	१६.०४.२०२४ रोजी स.११.००चा. पामूनो दु.०२.००चा. पर्यंत	१५.०४.२०२४ रोजी सार्वे.५.०० जा.पर्यंत
w) #	नस्थाय मोहन पर्य वर्णसार) रेडल पनश्याम स्थ (सह-मार्गसार)	पर्वतः क्र. १०६. १ जा प्रकातः, पर- विमा, प्रेतावः वीकारतः २६. १९ भी भी वर्णतः वीकः, प्रीवा प्रमा प्राचाता कारण, राज्येतः, १९८, विभागः ॥ १ आणि २. १४३, १९९, विभागः ॥ १, व्यूचन वीकारतः, सूची १०८० भी भी , वालीवर्ताः नामः, स	क.१९,६५,३८१/- शि.४८.४९,२०२३ गेरी मामगी सूचना दिलेकः ०७.०७,२०२३	#.\$6,62,000 #.\$.64,000/- #.\$0,000/-	१६.०४.२०२४ रीजी स.११.००वा. पासूनते दु.०२.००वा. चर्चत	वि.१५.०४.२०२४ रोजी सार्थ.५.०० वा.पर्यंत

प्राधिकृत अधिकाज्याचे नाव आधि संपर्क तपशिल : वी.मनोव कुमार पाल, मोबाईल ऋमांक ८१३०९०८२११, ईंगेल आमडी: manoj.pal@arthfc.com

सर्व व सर्वी १, १ तुम्ब में में रागों में रोगों में में रेजिया में मार्थिय hittps://www.bankeauctions.com in filtps://www.bankeauctions.com in तो में कहा मार्थामार्थ कर्मात्री मार्थ्य में मार्थ्य में प्राप्त कर्मात्री मार्थ्य कर्मात्री मार्थ्य मार्थ मार्थ्य मार्थ मार धीवला १. मार्च ब्लाम आधानक आहे, ते आवत्म संव प्राप्त के **सीर प्रविश्व प्राप्तकेर विभिन्ने हे केपसादन क्रमांक : १२४-४३०२०/२१/२१/२२, ४२११९८१३४/ ११२५ / ११२६, बी.सम्द बालाकी वीविद्यालन स्थित: delhi@c1india.com, संपर्क जमांक ;+१९५९७७०२०८० जी संपर्क सब्द शखान आणि योगकाही सावसंके**

सरफावसी कावदा, २००२ अंतर्गत वैधानिक १५ दिवसांची विक्री सूचना

दिवांकः: ३०.०३.२०२४ छिकायः: धुंबई (महाराष्ट्र) प्रापिकृत सम्पिका आर्ट शैसिंग फायनान्स (इंडिया) सिमिटेड सृचना

भी, यजनेव एम. मेंद्रा है जिस पार्यती क ऑपोटिक हीसिंग मोमायटी लि. (नेंट्र्यो श्रास्तर्भाव हुतासन्य सामाद्यादा स्थान (नावा क्रांस्त्र) १९८२) च्या स्वारं क्र.४९६, १८चा रुवा, स्वारं १९५८) च्या स्वारं क्र.४९६, १८चा रुवा, स्वारं १९५८ (स्वारं स्वारं स्

क्का, १०४३ राजा स्थम झाता. सावटी चान्होरे, सोसावटीच्या धांडचता, क्कातीयपीता, मधत स्थापदाच्या ग्रह सेउमी व संसंधाचे इस्तीलप हीचाम चारस सिजा अन लवक्तवाच हरनात्राप ताचाम वाच्या क्रांचा अन् रावेदार्ग /आश्रेष प्रेणो राच्याकटुर काते दावे क्रिंच अश्रेष असल्यास ते ह्या सूचनेच्या प्रसिच्दीपास् १४ दिवसांत सो सावटीच्या भ(डावल) हरताताणस काही ताने/आक्षेप सोमाधरीने प्र केले तर, सोसाधरीच्या उपविधीतील तरवृद्धीनु वादर सोसावटी कार्यवारी करेल, सो दियोकुत उपनिर्धीची प्रत दानेदार/आवेषका चिव वांच्याकडे सदर मुचना प्रति त्रारक्षेत्रसून कालानधी समाप्तीच्या तास्स्पर्वत स समकाराज्या दिवली **ड्.१,०० ते ड्.४,००** पर्ट एमतस्य अस्तित

लब्ध आहेत साथ: मुंबई दिनांतः ३०.०३.२०२४ शिव पार्वती को-ऑप्लेटिक हॉमिंग संसायकी सि. मही/-मा. सचिव

जाहीर सूचना

अतं. की. किनों सी, खाद्मारीया न शीमती पूना के खाद्मारीया बोन्द्राष्ट्री संनय सम्बागम सुने बोन्द्राक्ष्यक्ष दिमांक १४,००,१०३० (द्रीकृतस्क-१०/८३०५/१०३०) संजीते कारानामा अंतर्गेत नदर मालमधा खोगी कारानामा अंतर्गेत नदर मालमधा खोगी कारामा अंतर्गेत निर्मा

प्रशासना कर विकास के प्रशासना कर की नहीं प्रशासन कर की मिल्री की प्रशासनी कर की नहीं पूर्व के प्रशासनीय में के अपने की प्रशासन की की माने पूर्व के प्रशासनीय में के अपने की प्रशासन की की माने प्रशासन के प्रशासनीय की अपने की प्रशासन की की प्रशासन के अपने की प्रशासन के अपने की प्रशासन के अपने की प्रशासन के अपने का प्रशासन के अपने का प्रशासन के अपने का प्रशासन के अपने का प्रशासन के अपने की अपने की प्रशासन के अपने की अपने की प्रशासन के अपने की अप

स्ती /
पत्तील जब न्यायालय

माँ निरंदास सेवर
माँ निरंदास सेवर
ची-१७५ मोला हमार, हिंदा दिखेशो
संगोलह, मांध्र मोगी गई।, मुस्ची-१७४०५२, चीन।
कुमी-१०४०५२, चीन।
कुमी-१०४०५२, चीन।
कुमी-१०४०५२, चीन।
कुमी-१०४०५२, चीन।

भी. वीचक क्यूचिंच काली है करेंद्र क्र. र राजा प्रदर्शा, प्रधान क्षेत्र, कालाव गोजर पठत, केलाको बावद कर्मा, जी गाँचित एठ (१), जून, कालाव पाएक, अद्योग, है जाद गर्वत के प्रधान केल्याचेंद्र जा. वि. संस्कृत क्षेत्रको केला गोजरामा (३) नार्वे केलाको केलाको केलाको केला राजरामा (३) मोजरामी कालाव कालाव काला १) मोजरामी कालाव कालाव काला 2) श्रीव्यक्ति प्रमाणि प्रमाणि प्रमाणि प्रश्नी तथा है। उत्तरी स्थापि तथा का गाँउ जिया का गाँउ ज्यान प्रमाण तथा विता हवा की, मुख्यी, ही, मुख्यी, ही, मुख्यी, ही, मुख्यी, ही, मुख्यी, ही, मुख्यी की, क्षेत्री प्रमाण क्ष्मी प्रमाणि की का गाँउ जिया है। इस उत्तरी की मान्या प्रमाण की का गाँउ जिया है। इस उत्तरी की मान्या की निव्यक्ति की निव्यक्ति में निव्य

सार्वजनिक न्यास नॉदणी कार्यालय, बृहन्मुंबई विभाग मुंबई पहिला मजला, सास्मी रा हमारत, सास्मीरा रोड, वरबी, मुंबई- ४०० ०३०

चौकशीची जाहीर नोटीस एस.आर. क्रमंक: GBR/00418/18/24 एस.आर. क्रमंक: GBR/00418/18/24 फेरफार अहवार/अर्ज क्रमंक: ACC/X/17/2/2024 स्तर्वजनिक न्यासार्व नाव: ABHERAJ BALDOTA FOUNDATION न्यासामा परपा:- Cio Mr. Shrenik N. Baldota, 2nd Floor, Baldota Bhavar 117, M. K. Marg, Churchgate Mumbai- 400 920, Mumbai.

प्रजास विकास (वर्णन)

ज. हा लक्सील अंदार्थ मूल्य

१. पंच १५०००/१३. प्रकार किंवा स्थार ।

ज. गांच किंव नोश्चार ।

जे से प्रकार किंव केंद्र ।

जे से प्रकार किंव केंद्र ।

जे से प्रकार क



> KCD

KCD INDUSTRIES INDIA LIMITED

George (1997) Ge

ation purpose and not for Publication, distribution, or release, direction of the outside limits. This is not an offer document. All capits we the meaning assigned to them in the letter of offer dated 19th the stock exchange where the Equity Shares of the Comparison.

terms of provisions of Companies Act, 2013 (Act) read with the relevant rules made thereunder, notice syment of First and Final Call Money on partly poid-up shares has been issued to such persons who wit embers of the company as on record date i.e. 10th August 2023. The call payment period has air spired on 01st September 2023.

our United Board of Directors of the company at its meeting held on 26th March 2024 approved the third remindicum demand robles for payment of First and First Clark Monoy (18. s. 13.50-); compressing Rs. 0.75-). Toward Clark Monoy (18. s. 13.50-); compressing Rs. 0.75-). Toward Clark Cla

Please note that the failure to pay the First and Final call money pursuant to the demand notice, as aforesa shall render the parity paid-up Rights Shares, including the amount already paid thereon, liable to be forfeit in accordance with the companies Art. Article of Association and Letter of offer. All correspondence in this regard may be addressed to Sixyline Financial Services Private Limited loog@skyliner1.com

Sd/ Rajiv Darj Managing Director and CFC DIN: 02088219

MANAPPURAM
HOME
(पुडीपी बनायुक्त होन प्राथनका ग्रा.न.)
इंदिर ३०९-३४५, ३४ ग्रामा, पू वित, कार्याका होर, अभि वृद्ध, इंबी-४०००९३

दुनिट ३०१-३५५, ३ए मजला, ए दिन, बल **संदर्भ छ**ः ८३३

ताबा सूचना (स्थावर मालमनेकरिता)

प्रधान (देखाद स्वात्त्र) के सिंद्युविद्यान और प्रितासिक अंतर अंदर प्रकाशित आण विद्या (देखाद स्वात्त्र) के प्रधान क्षित्र (प्रात्त्र) के प्रधान क्षित्र (प्रात्त्र) के प्रधान क्षित्र (प्रात्त्र) के प्रधान क्षित्र (प्रात्त्र) के प्रधान क्षित्र के प्रधान क्षित्र (प्रात्त्र) के प्रधान क्षित्र के प्रधान क्षत्र क्षत्र के प्रधान क्षत्र क्षत्र के प्रधान क्षत्र क्षत्र के प्रधान क्षत्र के प्रधान क्षत्र क्षत्र के प्रधान के प्रधान क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र के प्रधान क्षत्र क्षत्र के प्रधान के प्रधान क्षत्र क्षत्र के प्रधान क्षत्र क्षत्र क्षत्र के प्रधान क्षत्र क्षत्र

अ.	कर्जवार/सह-कर्जवार/	प्रमाचन हित केले आहे मामामत	मागणी सूचना दिनांक	तामा
क.	ज्या साते/गासा	प्रतिभृत मालमनेचे वर्णन	च धकताकी रक्तम	विनांक
1	तर्पद सरद रागे, सुप्रिया पांतुरंग मालप, महेना तुपार जोती / वीसु५०पीसुमा जोलगाम,०००,०५५०,१७६५/ विका	क्तंट क्र. ३०२, ए किंग, आ मंत्रसा, स्तर्हे क. ३३९/२, श्री सिद्धीविनायक अपार्ट., बोळीत रोड, बिरार पश्चिम, ठापे, पी.ओ. नागामोचारा पूर्व, ठापे, बहाराए-४०१२०९.	१२.०१.२०२४ म न.७८३१ ५ ९/-	75,05,7072

दिनांक: ३० मार्च, २०२४ विकाम: विसा, बहाराष्ट्र

महा/ – प्राधिकृत अधिकारी यनप्पुरम होय फायनाना तिमिटेड

जाहिर नोटीस

मे. उप निबंधक, सहकारी संस्था, (परसेवा) महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था फेडरेजन लि. मुंबई यांचे मुख्य कार्यालय पता : ६/६०३, दुगां कृषा को-ऑप हॉसिंग सोसायटी,

हन्मान चौक, नवघर रोड, मुलंड (पूर्व), मुंबई-४०००८१. श्री. कल्मेश्र्वर सहकारी पतसंस्था लि., मुंबई

पलाः – ११, जिवस्मृतो बिल्डींग, जिंगदे मास्तर चौंव करीरोड, मुंबई-४०००१३.

	साथ देशा चाचे नाथ	अर्ज दाखन दिनांक	दावा ऋगंक	दावा एक्कम रूपये	जाब वेणार क्र.
9	दिपक करज़ीनाथ ज़िंदे	08/02/28	609	92036	*
5	प्रमोदकुमार दिपलाल जैल्ह्याल	98/08/88	680	84564	8
3	संतोष महाबीरप्रसाद ददीच	08/09/98	620	84284	.5
8	लासचंद्र ग्रमनाथ पादव	05/05/58	650	80550	В
٩	संतोष महावीत्प्रसाद द्वीच	08/02/28	688	44568	
ţ	प्रमोदकुमार दिपलाल जैस्वाल	04/04/98	688	44.50×	
ð	लालचंद सम्बन्ध यादव	25/05/30	883	48968	3
5	जाफर इंडाहिम शेख	03/03/38	683	48444	ě
9	राकेलकुमार समनाच मीर्वा	98/69/88	688	65858	2
0	दिनकार राळतंत भोजरे	39/90/30	683	X4260	3
Ŷ	राजेशकुमार शिवनाथ सिंग	08/09/98	68×	36505	*
3	संतोष मधुकर प्राश्चिगायकर	98/98/88	68%	30336	5
3	मंगलाप्रसाद विजयवहादुर सिंह	35/50/20	833	20886	8
×	सुरेश व्यवन ग्रामं	08/09/98	684	80008	*
4	रामलिंग महिचली गाँर	08/09/9%	684	80009	9:
5	माप्या सोन्या जाधव	98/98/88	684	80008	9
ó	बिनोद संभाजी बनमोडे	05/07/78	685	555.863	8
٤	गुलाब नथुजी चौधरी	98/98/88	688	555861	- 10
0	सुबिल विद्वल आहेत्कर	08/09/98	680	84080	8
0	गाँठेलंकर बचेन वादव	08/02/28	683	84050	8
2	मोहनप्रसाद समदुलार मौर्या	98/09/86	689	203405	8
3	मुन्ना शिवलाल गुजा	03/03/38	688	700407	5
à	अर्गविद्कुमार कृष्णमोहन गुप्ता	05/09/78	253	203402	3
×	शिवनास्यण बलदेव पाल	08/09/98	680	131690	8
4	रमाकोत केदारनाथ यादय	85/65/50	450	135690	- 2
ų	कृष्णकुमार रामाधिलाख मिश्रा	95/65/50	670	195690	2
0	चंद्रकेश अध्ययगत मिश्रा	08/09/98	688	****	3
ć	ब्रिज भुषण राजदेव मिश्रा	08/09/96	658	8 XX364	2
0,	राधेश्याम कृष्णकृषार पाँड	95/05/58	658	2.88384	3
0	अक्षोक भिकानी मोरी	98/99/88	493	294565	8
3	विनंद्र आगोक मोरी	08/09/98	699	254868	3

रातयण इंडमंकटी ०६/०२/२४ ८२३ १७५६०९ २ १ ०६/०२/२४ ८२४ १११८९८ १

31. 35.	जाब देशाऱ्याचे नाव	अर्ज दाखान दिनांक	दाया क्रमांक	दावा स्वकम रूपपे	जाध देणार क्र.
38	अशोक लक्ष्मण गायकवाड	08/09/98	6.84	98860	3
à o	सत्यदेश गमकृत्रई सिंग	05/09/98	698	25086	-6
36	स्रजवानी स्वृत्यान पाल	05/09/98	695	38063	9
39	रामतेरम दुश्री पाल	04/09/98	255	38066	0
¥0	गीतम नाग्यल सब्दाल	05/09/98	459	86.053.8	5
48	प्रभाका खंडु इंगवले	05/09/98	699	939049	9
43	विद्वल मानती देवार्डे	09/09/98	680	373753	×
×3	सुंदर पण् पुजरी	08/09/98	963	949330	5
8.8	चंद्रावनी म्माप्रोकर यादव	95/50/80	685	449000	3
¥4	नागें इप्रताय धगसान गाँउ	95/65/58	635	900933	5
45	वीरिद्र समाजकर यादव	04/07/78	688	44544F	1
40	प्रेमचंद केदार गुप्ता	04/09/98	633	225828	9
23	जोगेंद्र गणेश समी	98/99/98	683	996898	3
89	द्रागरथ धर्मा मकसाना	08/09/98	438	838888	9
40	जिल्लांकर गमकान यादल	05/07/78	634	49049	
42	जवाहस्ताल जिवप्रसाद कुर्मी	08/02/28	634	49049	9
42	स्रेशाचंद्र गमकान वादव	04/09/98	634	44044	3
43	वेहुकेन गिरीश नवोड	05/09/98	635	906399	8
48	नारायण दामाजी पाले	08/09/98	635	906379	9
QQ.	वन्द्रैयालाल नेज् पादय	95/50/80	689	288960	8
45	समस्त्रीत शिवचरण यादव	09/09/98	630	984960	5
40	रमाझंकर गोषाळ यादव	08/09/98	630	988960	b:
46	मनोज रामाधार सिंह	05/09/98	639	2068R5	9
49	ज्ञानेञ्चर सर्जेशव पिलावरे	08/09/98	688	298885	1:
50	रमुना समयुलार यादव	09/09/98	680	25005	
8.8	राप्तमुख गमनाध बादव	08/09/98	6.80	१३७७३	9
6.9	रामद्लार जंगी बादव	08/09/98	680	45003	5
53	राजेंद्र काशीनाथ पाटील	05/07/78	688	46649	5
48	अजित जयवंत काशीकर	03/09/98	688	46649	9
Ę1,	रामआसरे शीनाथ चादव	08/09/98	5.85	28486	1
有有	कमल उल्हास चेट्ने	08/09/98	685	28488	9
50	बाळ् राहु कालेकर	05/99/76	685	28464	9.
36	गौरोझं कर रिबर्डराम पादव	04/09/96	6.83	40869	1
49	संभाजी परमुगम माने	84/50/80	688	40864	1
50	मनो तक भार की जटार चाटन	05/02/2X	6.83	40360	×

प्रकार करियानुकार कर्याय प्रवास ।

स्वार स्थानिय केता में बीचा पानी प्रवास करियान मानियारीय मीतार प्रेमार में स्थान मानियारीय मीतार प्रेमार में स्थान मानियारीय मीतार प्रेमार में स्थान मानियारीय मीतार प्रमान में स्थान मानियारीय मीतार प्रमान में स्थान प्रवास मानियारीय मानियारीय मीतार प्रमान में स्थान प्रयास मानियारीय मुझ्ले मानियारीय मानियारीय मुझ्ले मानियारीय मुझ्ले मानियारीय मानियारीय मुझ्ले मानियारीय मुझले मानियारीय मानिय

